





ઇલાહાਬાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ ઇલાહાબાદ

અનુમતિ-પત્ર

ગૃહ નિર્માણાર્થ અનુમતિ-પત્ર

યह અનુમતિ કેવળ ડૉ પ્રો નગર નિયોજન તથા વિકાસ અધિનિયમ 1973 કી ધારા 14 વ 15 કે અન્તર્ગત દી જાતી હૈ, કિન્તુ અર્થ યહ ન છે કે સમજના ચાહિયે કે ઉસ ભૂમિ કે સમ્બન્ધ મેં જિસ પર મકાન બને ઇસસે કિસી પ્રકાર યા કિસી સ્થાનીય નિકાય યા ઇસકા સ્થાનીય આધકારી યા બ્યક્ટિ અથવા ફર્મ કે માલિકાના અધેકારોં પર કિસી કા કોઈ અસર પડેગા અ રીત યહ અનુમતિ કિસી કે મિલ્કિયત યા સ્વામિત્વ કે અધિકારોં કે વિરુદ્ધ કોઈ પ્રભાવ ન રક્ખેગો।

નિર્માણિત પ્રાથમન્દો કે આધાર પર અનુમતિ દી જાતો હૈ કે શ્રીમતી/શ્રી  પિતા/પતિ કા નામ શ્રી  મુહુલલા  વાર્ડ નામબાર  મેં નવશે મેં દર્શિત સ્થાન પર જો પ્રાર્થના-પત્ર કે કાસ પ્રસ્તુત કિયે ગયે હૈનું, સાચિવ કે ચિહ્નિત ભવન ચિત્ર કે અનુસાર નિર્માણ અથવા પુનઃ નિર્માણ કરેં। 



શ્રીમતી/શ્રી (સંબન્ધ) ૦
સાચિવ
ઇલાહાબાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ
ઇલાહાબાદ

નોટ :— 1—યહ સ્વીકૃતિ પત્ર કેવળ પાંચ વર્ષ કી અવધિ કે લિએ હૈ। યદિ ભવન કા નિર્માણ સ્વીકૃત માનચિત્ર કે અનુસાર બધીં કિયા જાતા હૈ તો ઉસે ગિરવાયા જા સકતા હૈ। જિસકા પુણ્ય બાર પ્રાર્થી પર હોગા। યદિ કોઈ ઇમારત બિના સાચિવ વિકાસ પ્રાધિકરણ કે અનુમતિ પ્રાપ્ત કિયે નિર્માણિત અથવા પુનઃ નિર્માણિત હોની તો ઉસે નિર્માણકર્તાની કોઈ દણ્ડ દિયા જાવેગા અથવા ઇસ પ્રકાર કી યહ અધિનિયમ કી ધારા 27 કે અન્તર્ગત દણ્ડનીય હોગા તથા સાચિવ વિકાસ પ્રાધિકરણ દ્વારા હટવા દિવા જાયગા ઔર ઉસે હટાને કે ખર્ચે કા ભાર ઉસ ઇમારત બનબાને વાલે સે 10 પ્રતિશત સંગ્રહ શુલ્ક કે સાથ વસૂલ કિયા જાયશે।

2—ઇસ અનુમતિ-પત્ર મેં સડક, ગલી યા નાલી પર બઢા કર પ્રાજેક્શન જસે કે પોઈટ કા, બારજા, તોડિયા, સીઢી, જ્ઞાપ નયે અથવા પુરાને નિર્માણ કો તોડકર ઉસ જગહ ફિર સે નયે નિર્માણ કા સ્વીકૃતિ ચાહે ઉસે સાથ નવશે મેં દિખાઈ ભી હો, નહીં પ્રદાન કી જાવેગી।

3—મકાન નિર્માણ સે યદિ નાલી કે સડક કી પટરી અથવા સડક યા નાલી કે કિસી ભાગ (જો મકાન કે અગાઉદે પિછવાદે અથવા ઉસે આકાર કે કારણ હક ગઈ હો) કી હાનિ પહુંચે તો ગૃહ સ્વામી ગૃહ તૈયાર હો જાને પર 15 દિન કે ભૌતર અથવા યાંદ વિકાસ પ્રાધિકરણ ને એક લિખત સૂચના દ્વારા ઔર શોન્ન કહા તો પહલે હી ઉસે અપને ખર્ચે સે મરમ્મત કરાકર પૂર્વવત અવસ્થા જિસસે વિકાસ પ્રાધિકરણ કો સન્દોષ હો જાય, મેં કર દેગા।

4—ગૃહ નિર્માણ કે સમય ઇસકા ભોગ્યાન રહના હોગા કી ભારતીય વિદ્યુત અધિનિયમ (1956 (ઇંડિયન ઇલેક્ટ્રિસિટી રલ્સ 1965) નિયમ 82 કા ઉલ્લંઘન કિસી ભી દશા મેં ન હોના ચાહિયે। યદિ વિકાસ પ્રાધિકરણ કી જાનકારી મેં એસે માસ્લે પાયે ગયે તો વહેં એસે નિર્માણ કો રોક અથવા હટવા સકતા હૈ।

5—પ્રાર્થી કો નિયમાનુસાર વિકાસ પ્રાધિકરણ કે મકાન કી નીંવ તક તથા છુત તક બન જાને એવું ઉસે પૂર્ણ હો જાને કી સૂચના મકાન આબાદ હોને સે પૂર્વ દેના હોગા વથા ઉસ આદમી કા નામ ભોગા જિસકે નિર્ધારણ મેં મકાન નિર્મિત હુબ્બા હૈ।

6—યદિ નિર્માણ મેં માસ્ટર પ્લાન કા ઉલ્લંઘન હોતા પાયા ગયા તો નિર્માણકર્તા કી દી ગઈ સ્વીકૃતિ રદ્દ સમજી જાવેગી ઔર કિયા ગયા નિર્માણ અનધિકૃત ઘોષત કર ઉક્ત આધિનિયમ કી ધારા 27 (1) કે અન્તર્ગત કાર્યવાહી આરમ્ભ કી જાવેગી।

પ્રાતિકિયા
—૮૦૧

SIG. OF ARCHT.

COA Regd No 23304
WAST CONSULTANT
SIGNAL KARALE
ARCHITECT

SIG. OF OWNER

1. SMT. RAJ KUMARI
2. SRI RAKHI DAWODE

OWNER

PROPOSED OFFICE BUILDING PLAN OF PARCEL NO. 53 UPPERHATH SITE NO. 53/1

SCALE: 1:100

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302